



हिन्दी दैनिक



समाचार-पत्र

आमिद रेखा



वर्ष 05 अंक 187 कुशीनगर शनिवार 08 मई, 2021 पृष्ठ 8 मूल्य 1 रूपये

कब आएगा कोरोना का पीक: पीएम मोदी के सलाहकार का दावा...

मई मध्य तक आएगी दूसरी लहर

जून अंत तक रोजाना आने वाले केस घटकर 20 हजार हो जाएंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में पिछले 15 दिन से 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 4.12 लाख केस सामने आए हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों के तैयार किए एक मॉडल के मुताबिक दूसरा पीक बस आने ही वाला है और जून के अंत तक नए केस घटकर 20 हजार प्रतिदिन रह जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्च कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने एक मॉडल पेश किया है, उसके आधार पर प्च हैदराबाद के प्रोफेसर एम. विद्यासागर ने कहा कि कुछ ही दिन में पीक आने वाला है। हमारे प्रोजेक्शन कहते हैं कि जून के अंत तक देश में हालात फरवरी जैसे होंगे यानी तब तक रोजाना सामने आने वाले केसों की संख्या घटकर 20 हजार तक पहुंच जाएगी। इसी टीम ने पिछले महीने यानी अप्रैल मध्य तक भी पीक आने का अनुमान जाहिर किया था, लेकिन तब ये गलत साबित हुए थे। मौजूदा ट्रेंड से एक्सपर्ट की आशंकाएं बढ़ीं, 5 पॉइंट्स

1. बेंगलुरु के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस की एक टीम ने अनुमान जाहिर किया है कि आने वाले कुछ हफ्ते भारत के लिए बेहद मुश्किल भरे रहेंगे। 2. टीम के मुताबिक, अगर केसों और मौतों का मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो 11 जून तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर जाएगा। अभी ये आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। 3. लगातार 15वें दिन 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संक्रमण में मौजूदा तेजी भारत में सामने आए नए वैरिएंट की वजह से है। 4. कैलाश अस्पताल नोएडा की डॉक्टर अनुशाधा मित्तल ने कहा कि उनकी जान-पहचान के करीब 50 डॉक्टर वैकसीन के दोनों शॉट्स लेने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसकी वजह लगातार म्यूटेड होता वायरस भी हो सकता है और वो हालात भी जिनमें डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं। 5. भारत जैसे देशों से नए स्ट्रेन दूसरे देशों में भी फैल रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में दुनियाभर में संक्रमण ज्यादा लंबा खिंच



कोरोना पर एक्सपर्ट की 3 आशंकाएं

जून के शुरुआती हफ्ते तक पार हो जाएगा 4 लाख मौतों का आंकड़ा

नए वैरिएंट की वजह से भारत में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण

इंडिया जैसे वैरिएंट दूसरे देशों में पहुंचने से दुनिया में संक्रमण लंबा खिंचेगा

सकता है। पीक को लेकर अनुमान लगाना मुश्किल, वजह—आंकड़ों की तस्वीर सही नहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, पीक के लिए जो नया मॉडल अपनाया गया है, उस पर भी अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछले महीने भी यह मॉडल फेल हो चुका है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह आंकड़े कम करके बताए जा रहे हैं। न तो टेस्टिंग बढ़ाई है और न ही मौतों की सही तस्वीर सामने आ रही है। वहीं, देशभर

में श्मशान घाटों की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इससे पीक को लेकर सारे असेसमेंट जटिल होते जा रहे हैं। नया पूर्वानुमान अन्य वैज्ञानिकों के पूर्वानुमानों से मेल खाता है, जिसमें 15 मई के आसपास दूसरा पीक आने की बात कही जा रही है। यह पूर्वानुमान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते 24 घंटे में देश में 4.12 लाख नए केस सामने आए। इस दौरान 3,980 मौतें हुईं। इन स्थितियों के बीच भी

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि वे नेशनल लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। हालांकि, ज्यादातर राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन पहले से लागू है। कई राज्यों ने अपनी सीमाओं को सील कर रखा है। एक्सपर्ट के 4 अनुमान, जो गलत साबित हुए 1. पिछले महीने ही विद्यासागर की टीम ने अनुमान लगाया था कि 15 अप्रैल तक कोरोना का दूसरा पीक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अनुमान इसलिए गलत साबित हुआ, क्योंकि पैरामिटर ही गलत थे।



कोरोना काल में करीब एक महीने बाद गुरुवार को कानपुर के विभिन्न घाटों पर अंत्येष्टि के लिए सबसे कम शव पहुंचे। 297 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यह आंकड़ा पहली बार 300 से नीचे आया। वहीं, नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को रात 9 बजे तक भैरव घाट विद्युत शवदाह गृह में कोरोना संक्रमितों सहित 57 शव पहुंचे।

ममता ने केन्द्र सरकार से मांगी ऑक्सीजन की मदद

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा केंद्र ने पश्चिम बंगाल की बढ़ी हुई जरूरतों के बावजूद राज्य में उत्पादित ऑक्सीजन में से अन्य राज्यों का आवंटन बढ़ा दिया। ममता ने पीएम को लिखा पत्र? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि कोविड मामले में उछाल के साथ, बंगाल की ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ रही है और ऐसे समय में, केंद्र अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति अन्य राज्यों में कर रहा है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा है कि पिछले एक सप्ताह में बंगाल में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 470 मीट्रिक टन से बढ़कर 550 मीट्रिक टन हो गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार पहले ही केंद्र के साथ इस मामले को उठा चुकी है कि राज्य को अब दैनिक आधार पर 550 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। केंद्र ने क्या किया? पश्चिम बंगाल की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार ने आवंटन के बजाय, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में कुल उत्पादन से अन्य राज्यों के लिए एमओ का आवंटन बढ़ा दिया है।



नयी दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुरुवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति के 'बद से बदतर' होने का दावा किया और आरोप लगाया कि इस हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, "महामारी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। टीकों की अपर्याप्त आपूर्ति एक जटिल, कड़वा सच है, लेकिन सरकार अब भी इनकार कर रही है। तमिलनाडु में, 45 साल के अधिक उम्र वाले सभी लोगों को पहली खुराक नहीं मिल रही है, और दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या बहुत छोटी है।" पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, "18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के बीच के किसी को भी टीका नहीं लग रहा है। अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है।" चिदंबरम आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का मजाक उड़ा रहे हैं।" देश में एक दिन में कोविड-19 के 4,14,188 नये मामले सामने आने के बाद शुरुवार को संक्रमण के कुल मामले 2,14,91,598 हो गए, जबकि 3,915 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 2,34,083 हो गई।

डीएमके चीफ एमके स्टालिन बने तमिलनाडु के सीएम

चेन्नई, (एजेंसी)। द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके) के प्रमुख एम के स्टालिन ने शुरुवार को राजभवन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शपथ दिलाई। स्टालिन के साथ उनकी पार्टी के 33 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ लेने वाले नामों में 19 पूर्व मंत्री और 15 नए चेहरे शामिल हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने गुरुवार को स्टालिन के विधायकों को मंत्री बनाए जाने और उनके विभागों को नियुक्त करने संबंधी सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। स्टालिन के बेटे उधयनिधि मंत्रियों की सूची में शामिल नहीं हैं। डीएमके ने अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ा था और अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। स्टालिन के पास गृहविभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल इनीशिएटिव, स्पेशल प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन एन्ड वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली-एबलर्स जैसे विभाग भी हैं। चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग को चेन्नई के पूर्व मेयर एमए सुब्रमण्यम को सौंपा गया है वहीं जल संसाधन मंत्रालय डीएमके महासचिव एस दुरिमुरगन को दिया गया है। उदयनिधि के धनिष्ठ सहायक अनबिल महेश पोयमोजी को स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है केएन नेहरू नगरपालिका प्रशासन संभालेंगे। पलानीवेल थियागराजन को वित्त विभाग आवंटित किया गया है, जबकि ईवीएल वेलू को सार्वजनिक कार्य विभाग दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा राजनीति का 'रक्तरंजित' रूप है: शिवसेना

मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना ने शुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हिंसा से राजनीति का 'रक्तरंजित' रूप उजागर हुआ है और यह दिखाता है कि लोकतंत्र के बजाए ताकत तथा बाहुबल का शासन कायम है। पार्टी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार दोनों पर समान रूप से है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में कहा है, "पश्चिम



बंगाल में वास्तव में क्या हो रहा है और इसके पीछे किसके अदृश्य हाथ हैं? ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जबसे राज्य में भाजपा हारी है हिंसा की खबरें आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तुणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मारपीट की। लेकिन यह सब दुष्प्रचार है।

यूपी के मेडिकल कॉलेजों में 8 मई से लागू की जाए ई-ओपीडी: सीएम योगी

लखनऊ, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी शनिवार से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ई-ओपीडी की व्यवस्था लागू की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में इण्टिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) की व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने पर बल देते हुए कहा कि जिले की आबादी के मद्देनजर ईसीसीसी में फोन लाइन्स की संख्या बढ़ाई जाए। आईसीसीसी में विभिन्न कार्यों यथा टेलीकन्सल्टेशन, होम आइसोलेशन बेड की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किये जाएंगे। प्रत्येक जिले में



सभी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कन्स्ट्रेंट्स को कार्यशील रखने के लिए एनेस्थेटिक्स एवं टेक्नीशियन्स की उपलब्धता की जाए। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज के स्वास्थ्य एवं उपचार की जानकारी प्रतिदिन कम से कम एक बार उसके परिजनों को उपलब्ध कराने के लिए एक चिकित्सक नामित किया जाए। आयुष विभाग के 15 सौ डॉक्टर ऑनलाइन करा रहे 80 हजार लोगों को योग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आयुष विभाग के 1500 से अधिक डॉक्टर करीब 80 हजार लोगों को रोजाना ऑनलाइन योग व आयुर्वेद से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यही

मोदी सरकार ने जनता को निराशा किया: सोनिया

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने और जनता को निराशा करने का आरोप लगाया और आग्रह किया कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए हुई कांग्रेस सांसदों की डिजिटल बैठक में सोनिया ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि महामारी से बेहतर ढंग से

निपटने के लिए कदम उठाना और जवाबदेही तय करना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, "देश एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहा है। हजारों लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह देखना दुखद है कि लोग अस्पतालों में और सड़कों पर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा किसी भी तरह चिकित्सा सुविधा चाहते हैं।" उन्होंने सवाल किया, "मोदी सरकार क्या कर रही है? लोगों की पीड़ा और दर्द को कम करने की बजाय उसने



जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लिया है।" सोनिया के मुताबिक, सरकार के खुद के विशेषाधिकार समूह और राष्ट्रीय कार्य बल ने मोदी

विपक्षी दलों ने हमारी तैयारियों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इस साल अंधकार के साथ ऐलान कर दिया कि उन्होंने कोरोना महामारी पर जीत हासिल कर ली है तथा उनकी पार्टी ने इस तथाकथित सफलता के लिए उन्हें सम्मानित भी किया।" सोनिया ने दावा किया, "विशेषज्ञ की सलाह की उम्हेंका करते हुए मोदी सरकार ने ऑक्सीजन, दवाओं और वेंटिलेटर की आपूर्ति को मजबूत नहीं किया। हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार टीकों का समय पर ऑर्डर देने में विफल रही।

मुख्यमंत्री ने देर रात जनपद के आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए निर्देश

अमिट रेखा – निखिल कोविड–19 के प्रभावी उपचार कुमार/स्वतंत्र के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कसया – कुशीनगर। ा करा रही है। उन्होंने सभी



कोविड नियंत्रण पर वर्चुअल बैठक एन० आई० सी० के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में शाम 7 बजे आयोजित की गई ।बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में जनपद कुशीनगर के जिलाधिाकारी श्री एस० राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी , पुलिस अधीक्षक,तथा मुख्य चिकित्सा अधिकाारी मौजूद थे। बैठक में सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष को पूरी दृढता के साथ जारी रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार

जनपदों में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि, ऑक्सीजन एवं जीवनरक्षक दवाओं की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में कोविड–19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में आंशिक कोरोना कर्फ्यू उपयोगी सिद्ध हो रहा है। प्रदेश सरकार के इस प्रयास को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग स्वतः आवागमन कम कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान में 06 मई, 2021

बैंक खाते से 25,000 निकलने से खाताधारक परेशान

अमिट रेखा अमरजीत शर्मा प्रतापगढ़। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा /सघई पुर के 1 खाताधारक का बैंक खाते से २52000 निकल गया इसकी शिकायत पुलिस वा बैंक से की। पट्टी क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 सघईपुर निवासी राजेश कुमार पुष जीवी पुत्र छोटेलाल के खाते से बीते वृहस्पतिवार को लगभग 12रू30 बजे उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि खाते से २५5000 रूपया निकल गया उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया। बता दें कि राजेश कुमार पुष जीवी पुत्र छोटेलाल जो पेशे से अध्यापक हैं उनका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पट्टी में हे आज लगभग 12रू30 बजे उनके खाते से ६40000 निकल गया उनके मोबाइल पर मैसेज आया तो उन्होंने देखा और इसकी जानकारी बैंक में जाकर की तो पता चला की 10000 नहीं २52000 खाते से निकल गया है इसकी सूचना भुक्तभोगी ने पट्टी कोतवाली को तहरीर दी साथ ही बैंक मैनेजर को लिखित शिकायत दिया।

रमजान के आखिरी जुमें पर मस्जिदों में नहीं पढ़ी गई नमाज

अमिट रेखा अमरजीत शर्मा प्रतापगढ़। क्षेत्र में शासन की मंशा के अनुरूप पट्टी कोतवाल नरेंद्र कुमार सिंह ने आज क्षेत्र की मस्जिदों में रमजान के आखिरी जुमे पर जाकर करोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए रमजान के आखिरी जुमेपर मस्जिदों में नमाज नअदान करने की हिदायत दी पट्टी कोतवाल अपने हमराही सिपाहियों के साथ क्षेत्र की सभी मस्जिदों में जाकर सघन चेकिंग की साथ ही लोगों से अपील कि आप लोग अपने घरों में जाकर नमाज अदा करें जिससे इस महामारी से बचा जा सके।

प्रधान हरिहरपुर कैलहा ने अपनी हत्या की आशंका ब्यक्त किये

अमिट रेखा अमरजीत शर्मा प्रतापगढ़। थाना जेटवारा के गांव हरिहरपुर कैलहा के जीते ग्राम प्रधान को मिली धमकी हो सकती है हत्या तहरीर थाने में दी। यह बातें ग्राम प्रधान देवी प्रशाद मिश्रा ने कही की मेरी हत्या होने के बाद हो सकता है पुनःचुनाव हरिहर पुर कैल्हा के जितेन्द्र वर्मा को चुनाव में देवी प्रशाद मिश्रा ने हरा दिया इस बार देवी प्रसाद मिश्रा ने 6 वी बार बड़ी जीत दर्ज की इस मामले में जेटवारा प्रभारी संजय पाण्डेय को तहरीर देकर आरोपित किया है।

प्रत्याशी लगा रहे हैं ब्लॉक का चक्कर

- **अधिकारियों ने सोमवार को दिया है मतगणना करने का आश्वासन**

- **जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुशीनगर से गणना कराने की मांग की गई**

अमिट रेखा – कृष्णा यादव तरयासुजान – कुशीनगर। मिली जानकारी अनुसार जनपद के सेवरही विकासखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम सभा गाजीपुर में प्राइमरी पाठशाला भरकटिया गाजीपुर की बृथ संख्या 2 .3 .4 . के मतमत पेटिका में मतदाताओं द्वारा ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को दिए गए मतपत्रों को रखी गई मतपेटिकाओ मे डालतेसमय ध्यान न देकर मतपत्र एक दूसरे बक्से में डाल दिए जिसके कारण मतगणना के समय मतपत्रों का मिलान मतगणना कर्मियों द्वारा नहीं किया गया है ।सेवरही विकासखंड के ए,आर,ओ, ने भी सदस्य पद के प्रत्याशियों का शिकायत पर ध्यान नहीं दिया आज भी प्रत्याशी विकासखंड का चक्कर लगा रहे हैं सदस्य पद के प्रत्याशी वार्ड संख्या 2 फेकू प्रसाद ने बताया कि ब्लॉक पर जाने पर अधिकारी सोमवार को गिनती करने का समय दिए हैं प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारीध जिलाधिकारी कुशीनगर से इस घोर लापरवाही पर ध्यान देते हुए मतगणना में अनियमितता बरतने वाले कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए मतगणना संपन्न कराने की मांग की है। इस संबंध में कुशीनगर के समस्त अधिकाारियों के संपर्क सूत्र जो जारी किए गए हैं उसमें वीडियो सेवरही से उनके मोबाइल पर संपर्क स्थापित किया गया लेकिन नाचनीचे बूल जवाब मिला इसलिए उनका पक्ष नहीं जाना गया।

को प्रातः 07 बजे तक लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 10 मई, 2021 को प्रातः 07 बजे तक विस्तारित किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान आकरिमिक एवं आवश्यक गतिविधियां संचालित होती रहेंगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां तथा ई-गोमर्स से सम्बन्धित कार्य यथावत चलते रहेंगे। खाद्यान्न वितरण एवं टीकाकरण का कार्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुचारु रूप से जारी रहेगा। अनावश्यक आवागमन बन्द रहे। दवा अथवा ऑक्सीजन के लिए जाने वालों को रोका न जाए। विशेष परिस्थितियों के लिए ई–पास की व्यवस्था लागू रहे।मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान ठेला लगाने वालों, दैनिक श्रमिकों, रिक्शाईर्–रिक्शा चालकों, रेहड़ीध पट्टरी व्यवसायिों आदि के लिए कम्युनिटी किचन का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाए। प्रत्येक जनपद में शहरी क्षेत्रों में गरीबों और निाश्रितों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो। इसके

कोरोना नियंत्रण के लिए घर घर स्वास्थ्य कार्यकर्ता

द्वारा आवश्यकतानुसार दवाओं का हुआ वितरण

अमिट रेखा – निखिल कुमार/स्वतंत्र कसया – कुशीनगर। कोविड–19 को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वार 5 मई 2021 से 9 मई, 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में इस पांच दिवसीय अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी लोगों को कोविड–19 के नये रूप के प्रति सजगता, जागरूकता एवं कोविड–19 के संम्भावित रोगियों का चिन्हीकरण तथा कोविड –19 के लक्षण युक्त व्यक्तियों की कोविड–19 जांच एवं उनकी आवश्यकता का वितरण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर जाकर किया जा रहा है। इसके क्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमों का गठन करके माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक आशा क्षेत्र में एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम में 2 सदस्य स्थानीय आशा आंगनवाड़ी या अध्यापक या निगरानी समिति के सदस्य में से कोई एक शामिल होगा। प्रत्येक टीम एक आशा के क्षेत्र को 5 दिनों में पूर्ण रूप से आच्छादित करेगी। प्रत्येक टीम को मास्क, ग्लब्स और सैनिटाइजर व रिपोर्टिंग से

ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मठाधीशोकी हिल गई चूल्हे

अमितरेखा रोहित सिंह अमानीगंज। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अमानीगंज विकासखंड में तस्वीर बदली हुई दिखाई पड़ रही है अब तक अपना ब्लाक प्रमुख बनाने वाले मठाधीश इस चुनाव में परेशान नजर आ रहे हैं सत्ता के गलियारों में अमानीगंज क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव बहुत ही रोचक मुकाबले में पहुंच गया है आपको बताते चलें कि विगत 5चुनावो से अपना ब्लाक प्रमुख बनाते आए रुदौली विधायक रामचंद्र यादव इस बार जिला पंचायत

ओर ग्राम पंचायत में हुए चुनाव में हार के कारण जहां चंद दिन शांत रहे वही बड़ी मात्रा में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रमाण पत्र विरोधी खेमे के पास जमा हो चुका है सूत्रों का कहना है कि विधायक मिल्कीपुर और विधायक रुदौली पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि । पवन कुमार सिंह के प्रत्याशी को जिताने के लिए आज से जी जान से लग गए हैं जबकि संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार गडौधली निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख शेर बहादुर सिंह के नाती व पूर्व प्रधाान कृष्ण पाल सिंह के जेष्ठ

गेहूं क्रय केंद्र हटाने को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों से की शिकायत

- **किसान का गेहूं लेने के बजाय व्यापारी का लिया जा रहा फर्जी तरीके से गेहूं**
अमिट रेखा अमरजीत शर्मा प्रतापगढ़। विकासखंड बाबा बेलखरनाथ अंतर्गत शीतला गंज गेहूं क्रय केंद्र पर भारी अनियमितता किसानों का आरोप की नहीं खरीद रहे हैं गेहूं,वहां व्यापारियों का गेहूं खरीदा जा रहा है तत्काल क्रय केंद्र बंद कराए जाने की मांग। विकासखंड बाबा बेलखरनाथ गेहूं क्रय केंद्र शीतला गंज पर भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सहित तमाम आला अधिकारियों से शिकायत रहहा गांव के किसान लल्लन ओझा ने किया। योगी सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं तो संचालित किये है और किसानों के लिए ऋक्य केंद्र खोले गए हैं लेकिन उन्हें वह सहूलियत नहीं मिलती है जो किसानों को मिलनी चाहिए किसानों का गेहूं लेने के बजाय कमीशन खोरी के चक्कर में व्यापारियों से फर्जी खतौनी लगाकर व्यापारियों का गेहूं खरीदा जा रहा है क्रय केंद्र शीतला गंज में 2 सालों से स्थित क्रय केंद्र पूरी तरह से बदहाली के कगार पर खड़ा हुआ है सुबह से शाम तक धूप में खड़े किसान क्रय केंद्र का चक्कर लगाते लगाते वापस लौट रहे हैं विकासखंड बेलखरनाथ क्षेत्र के कई किसानों ने मुख्यमंत्री सहित खाद रसद विभाग के उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हुए शीतला गंज से क्रय केंद्र हटाने की मांग की है।

कंटेनमेंट जोन में सख्ती, पब्लिक एट्रेंस सिस्टम में तेजी, होम आइसोलेशन मरीजों को शत प्रतिशत दवा इत्यादि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिये।मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से गांवों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज से प्रदेशव्यापी वृहद टेस्टिंग अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके तहत निगरानी समितियों के माध्यम से घर–घर स्क्रीनिंग की जाए। लोगों के तापमान और ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जाए। लक्षणयुक्त व्यक्तियों का आर०आर०टी० द्वारा रैपिड एण्टीजन टेस्ट किया जाए। आवश्यकतानुसार लोगों के लिए अस्पताल अथवा क्वारण्टीन सेण्टर अथवा होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को अनिवार्य रूप से मेडिकल किट उपलब्ध कराते हुए उन्हें अन्य सावधानियां बरतने की जानकारी दी जाए। उन्होंने आर०आर०टी० तथा अभियान के लिए वाहनों की संख्या में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि अगले एक सप्ताह तक ग्रामीण इलाकों में स्क्रीनिंग का व्यापक अभियान संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड उपचार सुविधाओं को

लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। सभी जनपदों में बेड की वर्तमान क्षमता को दोगुना करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि नॉन–कोविड मरीजों के उपचार–को लिए प्रत्येक जनपद में एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल का संचालन किया जाए, जहां गम्भीर रोगों के इलाज की उच्चस्तरीय सुविधा उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में नॉन–कोविड मरीजों को टेलिकंसल्टेंसी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श देने के लिए चिकित्सकों का पैनल गठित किया जाए। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के उपचार के लिए प्रत्येक जनपद में जिला महिला चिकित्सालय को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिये।मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘108’ एम्बुलेंस सेवा की 75 प्रतिशत एम्बुलेंस का संचालन कोविड कार्य हेतु किया जाए। शेष 25 प्रतिशत एम्बुलेंस को नॉन–कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखा जाए। एम्बुलेंस के चालकों एवं अन्य सहयोगी स्टाफ को मास्क, ग्लब्स तथा सैनिटाइजर आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक कोविड अस्पताल प्रतिदिन दो बार संस्थान में खाली बेड की

सम्बन्धित जरुरी प्रपत्र उपलब्ध ा कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पांच टीम पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जो टीम द्वारा किए गए कार्य की निगरानी करेगा और टीम को माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य करके मास्क एवं रलब्स पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने के बारे में विस्तार

से जानकारी देगा। पर्यवेक्षक शाम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का संकलन करके शाम तक जनपद को प्रेषित करेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निम्न गतिविधि ायां अपने–अपने क्षेत्र में सम्पादित करेंगे। कोविड–19 रोग से बचाव के उपाय, रोग के पुराने एवं नए लक्षण के विषय में जन सामान्य को जानकारी देंगे। निकटवर्ती जांच एवं उपचार केंद्र के विषय में जन सामान्य को जानकारी देंगे।

संख्या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। यह विवरण पोर्टल पर भी उपलब्ध रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की सुचारु आपूर्ति के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक दिन आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। विगत 24 घण्टे में साढ़े सात सौ मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन सरकारी व निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने ऑक्सीजन को पारदर्शी आपूर्ति व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों में उपलब्ध कराये गये कन्सन्ट्रैटर तथा वेंटिलेटर क्रियाशील रहें। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाए। कतिपय जिलों में एनेस्थेटिक नहीं हैं, वहां अविलम्ब एनेस्थेटिक और तकनीशियन उपलब्ध कराए जाएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर सहित सभी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए रेमडेसीवीर के दैनिक आवंटन में वृद्धि की गयी है। सरकारी कोविड अस्पतालों में यह इंजेक्शन पूर्णतः निःशुल्क है। निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार जिलाधिकारीमुख्य चिकित्सा अधिकारी इसकी उपलब्धता कराई जा रही है। सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाए तो वहां नर्सिंग स्टाफ के साथ–साथ एक चिकित्सक भी उपस्थित हो। इस जीवनरक्षक

कोरोना कर्फ्यू में नियमित रूप से खाद बीज एवं कीटनाशक की खुलेंगी दुकानें

देवरिया ब्यूरो। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान खाद बीज एवं कीटनाशक की दुकाने नियमित रूप से खुलेगी स लॉक डाउन की अवधि बढ़ने की दशा में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने यह भी बताया है कि इस दौरान कोविड–19 के प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन भी अनिवार्य होगा स किसी भी प्रतिष्ठान पर एक साथ दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे एवं प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी अवश्य रहे स अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।अधिकाारी ने बताया कि यह व्यवस्था किसानों के हित में की गई है ताकि उन्हें आवश्यकता के अनुरूप खाद बीज आदि की आपूर्ति समय से प्राप्त होती रहे।

नई पहल एक्शन एड संस्था ने कोरोना काल में सहयोग का लिया संकल्प

- **एक्शनएड अशहाय,बेरोजगार,कोरोना मरीज के सहयोग हेतु आए आगे**

अमिट रेखा – दुर्गेश कुमार यादव धानी – महाराजगंज। शाह फैसल हुसैन सहायक जिला समन्वक नई पहल एक्शन एड लखनऊ ने बताया की अभी हम लोग कोरोना मरीज को सीएचसी से मिलकर दवा किट पहुंचा रहे है लिस्टिंग कर रहे है अशहाय ,छोटे दुकानदार जैसे ठेला चलाने वाले को विधाव परिवार ,दिव्यांग परिवार को सूखा राशन और मास्क ,सैनिटाइजर ,साबुन बितरण कर महामारी को देखते हुए एक्शन एड एसोसिएशन द्वारा असहाय , दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यवसाई के मदद के लिए प्रेरक आगे आए है ऐसे परिवारों के लिए जो जरूरत मंद है उनकी सहयोग किया जाएगा तथा कोरोना से संक्रमित मरीज के परिवार को जागरुक करने के साथ परिवार के सदस्यों को हौसला बढ़ाने मरीज को अलग रखा जाय लेकिन उनको अकेलापन महसूस न होने दिया जाय। जरूरत पड़ने पर एक्शन एड द्वारा डॉक्टर को भी नि: शुल्क परामर्श हेतु मदद के लिए समूह बनाया गया है । कोरोना से मृतक ऐसे परिवार जो कमाऊ व्यक्ति परिवार से चले गए है उनके मदद के लिए उनके सहयोग हेतु आगे आए है एक्शन एड ,प्रेरक सामाजिक कार्यकर्ता आदि । संस्था के सहायक जिला समन्वयक शाह फैसल हुसैन ने बताया कि अगर किसी को मददत की जरूरत हो तो मो०नं० 8052171080 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

गांजे के साथ धराया आरोपी, केस दर्ज

- **कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को पांच घंटे ग्राम गांजे के साथ धर दबोचा**

अमिट रेखा अमरजीत शर्मा

प्रतापगढ़। कोतवाली के दरोगा रामानुज यादव गुरुवार को

शरत पर थे। इस बीच बाबूगंज बाजार से पूरे शिवबक्श भदारी कला के बीच पुलिया पर एक आरोपी झोले में संधिग्ध वस्तु के साथ दिखा। तलाशी में उसके पास से ब्रिडी के लिए गांजा बरामद देख पुलिस भोचक रह गयी। आरोपी पूरे शिवबक्श भदारीकला निवासी संतोष कुमार पटेल के पास से पांच सौ ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत मे लेकर उसके खिलफा एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज किया है। कोतवाल रणजीत सिंह भदौरिया का कहना है कि आरोपी को हिरासत मे लिया गया है, जेल भेजा जाएगा। इधर चर्चा है कि आरोपी किराने की दुकान की आड़ मे गांजा ब्रिडी का गुपचुप गोरख्ध ांधा किया करता है।

बाबर आजम और फखर जमां ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नामित

दुबई। पाकिस्तान के बल्लेबाजों बाबर आजम और फखर जमां को बुधवार को अप्रैल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद इन दोनों बल्लेबाजों को नामित किया गया। आईसीसी ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को मान्यता देते हुए नामितों की घोषणा की। इस सूची में पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के अलावा नेपाल के बल्लेबाज कुशल भुरतेल को भी पुरुष वर्ग में नामित किया गया। महिलाओं के वर्ग में आस्ट्रेलिया की एलिसा हिली और मेगान

शुट के अलावा न्यूजीलैंड की लेग कास्परेक को जगह मिली। पाकिस्तान के कप्तान बाबर पिछले महीने आईसीसी एकदिवसीय रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर नंबर एक बल्लेबाज बने। बाबर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 82 गेंद में 94 रन की मैच विजेता पारी खेली जिससे उन्हें 13 रेटिंग अंक का फायदा हुआ और वह करियर के सर्वश्रेष्ठ 865 अंक पर पहुंचे। उन्होंने तीसरे टी20 में भी 59 गेंद में 122 रन की पारी खेली जिससे पाकिस्तान की टीम लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। फखर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो वनडे में जीत के दौरान दो शतक जड़े जिसमें जोहानिसबर्ग में दूसरे मैच में 193 रन की पारी भी शामिल है। नेपाल के कुशल नीडरलैंड और मलेशिया की मौजूदगी वाली त्रिकोणीय श्रृंखला में अपनी टीम की खिताबी जीत के दौरान शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने



पांच मैचों में चार अर्धशतक की मदद से 278 रन बनाए। महिला

क्रिकेट में एलिसा ने न्यूजीलैंड की खिलाफ तीन वनडे में 51.66

की औसत और 98.72 के स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाए और अपनी

टीम की जीत के दौरान श्रृंखला में शीर्ष स्कोरर रही।

सक्षिप्त



बोपन्ना-शापोवालोव की जोड़ा मैट्रिड ओपन मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची

मैट्रिड। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके जोड़ीदार डेनिस शापोवालोव ने शीर्ष वरीय युआन सबेस्टियन कबाल और रोबर्ट फराह को यहां सीधे सेटों में हराकर मैट्रिड ओपन मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बोपन्ना की 2021 में एटीपी टूर पर यह पहली जीत है। भारत और कनाडा की जोड़ी ने बुधवार को राउंड आफ 16 मुकाबले में 6-3 6-4 से जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और शापोवालोव का सामना जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव और टिम पुप्टज की जोड़ी से होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने टवीट किया, "टॉप्स में शामिल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार डेनिस शापोवालोव की शानदार जीत जिन्होंने रोबर्ट फराह और युआन सबेस्टियन कबाल की दुनिया की नंबर एक पुरुष युगल जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराकर मैट्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिये पुजारा ने लिया योग और ध्यान का सहारा

नयी दिल्ली। भारत के टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिये वह योग और ध्यान करने के अलावा अपने अध्यात्मिक गुरु से सलाह लेते हैं। पुजारा ने यूट्यूब पर 'माइंट मैटर्स' इंटरव्यू में कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता की कुंजी ध्यान को झेलना होती है। उन्होंने कहा, "एक बार नकारात्मक सोचने पर सब कुछ नकारात्मक लगने लगता है। मैं योग और ध्यान का सहारा लेता हूँ। रोज प्रार्थना करता हूँ जिससे सोच सकारात्मक बनी रहती है।" उन्होंने कहा, "एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि मैं दबाव नहीं झेल पाऊंगा। युवावस्था में अपनी मां के पास जाकर मैं उनके सामने रोता था और कहता था कि इतने दबाव के कारण मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूंगा लेकिन अब मैं दबाव झेल लेता हूँ।" पुजारा की मां का निधन तब हो गया था जब वह 17 वर्ष के थे। उसके बाद से वह अध्यात्मिक गुरु की सलाह लेते हैं।

पेट्टीएम ने कोविड-10 वैक्सीन फाइंडर सुविधा शुरू की

नयी दिल्ली। ई-वॉलेट कंपनी पेट्टीएम ने टीकाकरण के स्लॉट की उपलब्धता का पता लगाने में लोगों की मदद करने के लिए गुरुवार को कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर सुविधा शुरू की। कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर पेट्टीएम के मिनी ऐप स्टोर में मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म से लोगों को किसी एक तारीख को टीकाकरण के स्लॉट की उपलब्धता का पता लगाने में मदद मिलेगी। लोग अपने आयु वर्ग (18 से ज्यादा या 45 से ज्यादा) के साथ अलग-अलग पिन कोड या जिले की जानकारी डालकर स्लॉट की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि आने वाले दिनों में स्लॉट खाली न होने की स्थिति में उपयोगकर्ता स्लॉट के खाली होने पर पेट्टीएम से रियल-टाइम अलर्ट पाने का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कहा गया, स्वचालित प्रक्रिया से नये स्लॉट का पता लगाने के लिए बार-बार प्लेटफॉर्म को रीफ्रेश करने का झंझट कम हो जाता है। यह डेटा रियल-टाइम के आधार पर कोविन एपीआई से लिया जाता है जहां टीका लेने के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है।

कमजोर मांग से जस्ता वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। हाजिर बाजार से कमजोरी का संकेत लेते हुए सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया जिससे वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को जस्ता की वायदा कीमत 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 231.80 रुपये प्रति किग्रा रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जस्ता के मई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 65 पैसे अथवा 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 231.80 रुपये प्रति किग्रा रह गयी। इसमें 2,366 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि हाजिर बाजार में उपभोक्ता उद्योगों की कमजोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की जिससे मुख्यतः जस्ता वायदा कीमतों में गिरावट आई।

बढ़ती मांग के कारण रिफाईंड सोया तेल वायदा कीमतों में सुधार

नयी दिल्ली। बढ़ती मांग के बीच सटोरियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को रिफाईंड सोया तेल का दाम 14.70 रुपये की तेजी के साथ 1,444 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गया। नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में मई माह में डिलीवरी के लिये रिफाईंड सोया तेल के वायदा अनुबंध का भाव 14.70 रुपये यानी 1.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,444 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गया। इस अनुबंध में 29,350 लॉट के लिये सौदे किये गये। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि व्यापारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण यहां वायदा कारोबार में रिफाईंड सोया तेल कीमत में लाभ दर्ज हुआ।

बढ़ती मांग के कारण रिफाईंड सोया तेल वायदा कीमतों में सुधार

नयी दिल्ली। बढ़ती मांग के बीच सटोरियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण वायदा कारोबार में बृहस्पतिवार को रिफाईंड सोया तेल का दाम 14.70 रुपये की तेजी के साथ 1,444 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गया। नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में मई माह में डिलीवरी के लिये रिफाईंड सोया तेल के वायदा अनुबंध का भाव 14.70 रुपये यानी 1.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,444 रुपये प्रति 10 किग्रा हो गया। इस अनुबंध में 29,350 लॉट के लिये सौदे किये गये। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि व्यापारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण यहां वायदा कारोबार में रिफाईंड सोया तेल कीमत में लाभ दर्ज हुआ।

कोविड-19 काल में जांच-परख कर करें विदेशी टी20 लीग से करार

ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वालों पर कम से कम 15 मई तक का प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे इंडियन प्रीमियर लीग में भाग ले रहे लगभग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, सहयोगी सदस्य, कमेंटेटर और मैच अधिकारीमिलाकर 40 सदस्य स्वदेश रवाना होने से पहले मालदीव जाएंगे।

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संघ (एसीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोड ग्रीनबर्ग ने खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वैश्विक महामारी को देखते हुए निकट भविष्य में विदेशी टी20 लीग के लिए करार करने से पहले उससे जुड़े जोखिम को अच्छे से 'जांच-परख' ले। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वालों पर कम से कम 15 मई तक का प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे इंडियन प्रीमियर

लीग में भाग ले रहे लगभग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, सहयोगी सदस्य, कमेंटेटर और मैच अधिकारीमिलाकर 40 सदस्य स्वदेश रवाना होने से पहले मालदीव जाएंगे। ग्रीनबर्ग ने 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' से कहा, "मुझे यकीन नहीं है इससे खिलाड़ियों के मन में संकोच (भविष्य में) होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ी समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले थोड़ी समझदारी दिखायेंगे।" उन्होंने कहा, "कोरोना वायरस के कारण हमारी आंखों के सामने दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है, दुनिया के उस हिस्से में (भारत) में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।" जोश हेजलवुड, मिशेल मार्श और जोश फिलिप जैसे कुछ क्रिकेटर्स ने बबल थकान का हवाला देते हुए आईपीएल शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था जबकि एडम जम्पा, केन रिचर्डसन और एंड्रयू टाये ने टूर्नामेंट को बीच में छोड़ दिया और सरकार द्वारा सीमा बंद करने से पहले अपने देश पहुंच गये। ग्रीनबर्ग ने कहा, "हम ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्वतंत्रता का लुप्त उठा रहे हैं। लेकिन वहां पर स्थिति काफी बुरी है। इससे कुछ खिलाड़ियों को संदेश जाता है कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले चीजों को अच्छी तरह जांच-परख ले।" ग्रीनबर्ग ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलियाई दल के कई सदस्य इस समय चिंता और तनाव का सामना कर रहे होंगे। उन्होंने वादा किया कि खिलाड़ी जब स्वदेश लौटेंगे तो उनकी मदद की जाएगी।



मलेशिया में भारत के लोगों की एंट्री बंद, सानिया और श्रीकांत की बड़ी मुश्किलें!

इंडियन ओपन (11 से 16 मई) के स्थगित होने के बाद साइना और श्रीकांत की तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें कुआलालंपुर (25 से 30 मई) और फिर सिंगापुर ओपन (एक से छह जून) पर टिकी है।



नयी दिल्ली। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल और पुरुष वर्ग के स्टार खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत की मलेशिया ओपन के जरिये ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें अघर में अटक गयी है क्योंकि मलेशिया सरकार ने कोविड-19 से जुड़ा रहे भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार हालांकि इसका हल निकालने के लिए मलेशिया

से बात कर रही है। इंडियन ओपन (11 से 16 मई) के स्थगित होने के बाद साइना और श्रीकांत की तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें कुआलालंपुर (25 से 30 मई) और फिर सिंगापुर ओपन (एक से छह जून) पर टिकी है। भारत में कोविड-19 मामले के मद्देनजर मलेशिया और सिंगापुर ने 28 अप्रैल को भारत से आने वाली विमानों पर रोक लगा दी थी।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) से जारी बयान में कहा गया, "खेल मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय की मदद से मलेशिया के अधिकारियों से भारतीय बेडमिंटन टीम को 25 से 30 मई तक होने वाले मलेशिया ओपन में भाग लेने के लिए मंजूरी देने की मांग की है।" उन्होंने बताया, "भारत में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण मलेशियाई सरकार ने वहां के भारतीय उच्चायोग को बताया कि फिलहाल टीम को यात्रा की मंजूरी नहीं दी जा सकती।" साइ ने कहा, "टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 19 दिन बाकी है और ऐसे में प्रतियोगिता को भाग लेने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।" यह 15 जून की समयसीमा तक ओलंपिक क्वालीफिकेशन के आखिरी टूर्नामेंटों में से एक है। इस टूर्नामेंट में देश के शीर्ष एकल और युगल खिलाड़ियों में शामिल पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत, राज प्रणोित, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेटी, अश्विनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी को भाग लेना था।

रुपया 13 पैसे की तेजी के साथ 73.78 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मुंबई। अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने तथा घरेलू शेयर बाजार में तेजी आने के समर्थन से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया 13 पैसे की तेजी के साथ 73.78 रुपये (अनामित) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा 73.87 पर खुली, तथा इसने दिन के कारोबार



में 73.77 रुपये के उच्च स्तर और 74 रुपये के निम्न स्तर को छुआ। कारोबार की समाप्ति पर रुपया 13 पैसे की तेजी दर्शाता 73.78 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बुधवार को यह 73.91 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.30 प्रतिशत घटकर 91.03 रह गया। बाजार सूत्रों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार में आई तेजी ने रुपये की गिरावट पर अंकुश लगा दिया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयर्स पर आधारित सेंसेक्स 272.21 अंक की तेजी के साथ 48,949.76 अंक पर बंद हुआ। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने बुधवार को 1,110.50 करोड़ रुपये के शेयर्स की बिकवाली की। वैश्विक मानक माने जाने वाले ब्रेट क्रूड वायदा 0.33 प्रतिशत घटकर 68.73 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।


विमानन कर्मचारियों के टीकाकरण को लेकर केन्द्र ने जारी किए दिशा-निर्देश

नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी विमानन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण को लेकर बृहस्पतिवार को दिशा-निर्देश जारी किए। केन्द्रीय



नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत हवाई अड्डों का संचालन करने वाली कंपनियों को अपने-अपने हवाई अड्डों में कोविड टीकाकरण अभियान के लिए समर्पित केन्द्रों की स्थापना करनी होगी। टीकाकरण अभियान के तहत हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी), एयरलाइंस कंपनियों के कॉकपिट और केबिन क्रू के सदस्यों के अलावा यात्रियों के प्रबं

न से जुड़े कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल, देश इस समय कोविड-19 महामारी की दूसरी भयावह लहर का सामना कर रहा है जिसके कारण कई राज्यों में वैक्सीन, ऑक्सीजन, दवाइयों, चिकित्सीय उपकरणों और बिस्तारों की भारी कमी हो रही है। केन्द्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक हवाई अड्डों का संचालन करने वाली कंपनियों को जल्द से जल्द राज्य सरकारों अथवा उन निजी अस्पतालों से संपर्क करना चाहिए जो हवाई अड्डों पर टीकाकरण केन्द्र स्थापित करने को लेकर इच्छुक हैं। हवाई अड्डा संचालन करने वाली कंपनियों को इसके लिए पीने का पानी, सहायता केन्द्र, पंखों, टॉयलेट, टीकाकरण काउंटर और प्रतीक्षालयों की भी व्यवस्था करनी होगी। टीके की कीमत का निर्धारण हवाई अड्डा संचालक और टीके की खुराक उपलब्ध कराने वाली संस्था मिलकर कर सकेंगे जोकि प्रत्येक कर्मचारी के लिए समान रहेगी। हवाई अड्डों का संचालन करने वाली कंपनियों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गयी है। विमानन कर्मचारियों के टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी लेने के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष नियमित रूप से नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि एएआई के अंतर्गत देश के 100 से अधिक हवाई अड्डे हैं।



इस खूबसूरत अभिनेत्री ने की आठ शादियां और सिर्फ एक बार लिया तलाक, दो बार हुई ऑस्कर से सम्मानित

हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर को आज भी दुनियाभर में उनके प्रशंसक नहीं भुला पाए हैं। मालूम हो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर को उनके फैंस लिज टेलर कहकर बुलाते थे। चर्चित अभिनेत्रियों में शुमार एलिजाबेथ को उनकी शादियों की वजह से सबसे ज्यादा ख्याति मिली। हालांकि, वह बेहद खूबसूरत और योग्य कलाकार थीं। लेकिन जितना शानदार उनका फिल्मी करियर रहा, ठीक उसके उलट वैवाहिक जीवन बेहद उथल-पुथल भरा रहा है। दरअसल, एलिजाबेथ टेलर ने कुल आठ शादियां की थीं। इनमें पहली शादी तो सिर्फ नौ महीने चली और फिर तलाक हो गया। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आठ शादियां करने वाली एलिजाबेथ का यह पहला और अंतिम तलाक था। अभिनेत्री ने अपनी आठ शादी में दो शादी तो एक ही शख्स से की थी। बता दें कि इस हॉलीवुड अभिनेत्री ने आठ लोगों से सात बार शादी की। एलिजाबेथ ने पहली शादी कोनराड निकी हिल्टन से की थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी में विवाद हो गया। अंत में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी माइकल वाइलिंग से की। यह शादी खूब चर्चा में रही। दरअसल, उनके पति वाइलिंग उनसे 20 साल बड़े थे। लेकिन कुछ साल बाद अनबन के चलते एलिजा माइकल वाइलिंग से अलग हो गईं। इस अकेलेपन में

उनके करीब आए माइकल टॉड और कुछ समय की मेल-मुलाकात और डेटिंग के बाद एलिजा ने तीसरी शादी माइकल टॉड से की। लेकिन कुछ साल बाद ही टॉड की मौत के बाद एलिजाबेथ टेलर की करीबी एडी फिशर से बढ़ी। फिशर पहले से ही विवाहित थे। बावजूद इसके एलिजा और फिशर बहुत करीब आ चुके थे और आखिरकार एलिजाबेथ ने चौथी शादी फिशर से की। बता दें कि असफल होने के बाद उन्होंने किसी भी पति से तलाक नहीं लिया था। फिशर से अलगाव के बाद एलिजाबेथ का लगाव रिचर्ड बर्टन से हो गया, वह भी हॉलीवुड एक्टर थे। कहा जाता है कि एलिजाबेथ और रिचर्ड बर्टन दोनों ही एक-दूसरे से प्यार करते थे। फिर दोनों ने राजांमंदी से शादी कर ली। एलिजा की यह पांचवी शादी थी। लेकिन रिचर्ड बर्टन से भी उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और तलाक हो गया। लेकिन एलिजाबेथ-रिचर्ड के बीच मोहब्बत दोनों को फिर से करीब लेकर आई और तकरीबन डेढ़ साल (16 महीने) बाद दोनों ने फिर से शादी कर ली। यह एलिजाबेथ की छठी शादी थी। इसके बाद फिर फिर सातवीं शादी एलिजाबेथ ने जॉन वॉर्नर से की, लेकिन दोनों के बीच कुछ ही दिन में विवाद पैदा हो गया और यह रिश्ता अलगाव की ओर बढ़ा और आखिरकार दोनों अलग हो गए। एलिजा ने आखिरी और आठवीं शादी लैरी फोर्टेन्स्की के साथ की। बता दें



कि एलिजाबेथ की गिनती हॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में होती है। इंग्लैंड की महारानी उन्हें श्रेडमर की उपाधि से सम्मानित कर चुकी हैं। यह पुरुषों को दी जाने वाली शरर की उपाधि के समान ही महिलाओं को दी जाने वाली उपाधि है। इसके साथ ही अभिनेत्री को दो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन में 50 हॉलीवुड फिल्मों की।

सिद्धार्थ ने बीजेपी युवा मोर्चा प्रेसीडेंट तेजस्वी सूर्या को बताया अजमल कसाब से भी ज्यादा खतरनाक

साउथ के बेहतरीन अभिनेता सिद्धार्थ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सिद्धार्थ अक्सर अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय एकदम बेबाकी से रखते हैं। ऐसे में अब सिद्धार्थ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या की तुलना आतंकवादी अजमल कसाब से कर दी है, जिसके चलते वो चर्चा में आ गए हैं। क्या है सिद्धार्थ का पोस्ट सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट में लिखा, शतेजस्वी सूर्या, अजमल कसाब से भी अधिक खतरनाक और एक दशक बड़े हैं। इसके साथ ही सिद्धार्थ ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि इस ट्वीट को सेव कर लो। सिद्धार्थ के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन सिद्धार्थ के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स जहां सिद्धार्थ के इस ट्वीट की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अधिकतर सोशल मीडिया यूजर्स सिद्धार्थ को ट्रोल कर रहे हैं। एक्टिविस्ट राहुल ईस्वर ने भी सिद्धार्थ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ये ट्वीट बहुत दुखद है। आप चाहें तेजस्वी की बातों से सहमत न हों, लेकिन एक चयनित सांसद की तुलना एक हथियार से करना गलत है। हो सकता है आपने ये गुस्से में लिखा हो, लेकिन आपको एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए। तमिलनाडु बीजेपी मेंबर पर आरोप आदर दिला दें कि इससे पहले सिद्धार्थ ने तमिलनाडु बीजेपी मेंबर और आईटी सेल पर उनका फोन नंबर लीक करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनको और उनके परिवार को 500 से भी अधिक कॉल्स आ चुके हैं, जो गाली दे रहे हैं, रेप और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सिद्धार्थ ने ये भी कहा था कि वो चुप नहीं बैठेंगे और कोशिश करते रहेंगे।



वो सिंगर जिसने चार साल की उम्र से शुरू कर दी थी गायकी, जीते कई विशेष पुरस्कार



मशहूर ब्रिटिश सिंगर और गीतकार एडेल आज अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं। एडेल ने चार साल की उम्र से सिंगिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। उनका मन पढ़ने से ज्यादा गायकी में लगता था। 2008 में उनका एलबम '19' रिलीज हुआ और इस एलबम ने उन्हें स्टार बना दिया। एडेल आज तक 15 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 22 बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड भी जीते हैं। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर चलिए बात करते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पलों की। एडेल के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक था जब साल 2011 में उनकी तस्वीर यूके वोग मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी। और होता भी क्यों नहीं, कई लोग इस प्रतिष्ठित मैगजीन पर अपनी फोटो छपवाने के लिए क्या कुछ नहीं करते और उन्होंने यह कर दिखाया था। साल 2015 में एडेल ने हैलो (एडल-25) का पहला वीडियो जारी किया था। इस वीडियो ने महज 24 घंटे के भीतर 27.7 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। उनका एलबम '21' की अमेरिका में 11.2 मिलियन कॉपी बिकी थीं, जो उस वक्त अमेरिका में बिके टॉप 10 म्यूजिक एलबम में शामिल था। यह भी उनके सफलता के पन्नों में जुड़ गया। इसके बाद एडेल ने 'समवन लाइक यू' गाना लिखा व गाया। यह गाना यूके का तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गाना है। इस गाने में भी एडेल ने अपने दिल का हाल बयां किया। और अब एडेल एक ब्रेकअप स्टार के रूप में जानी जाती हैं। बता दें कि एडेल ने रॉयल एलबर्ट हॉल में भी इस गाने पर अपनी प्रस्तुति दी थी और वहां मौजूद सभी लोग उस समय भावुक हो गए थे। यह एडेल के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। इसके बाद एडेल लौटीं फिर अपने नए एलबम '30' से। इसका एक गाना 'समवन लाइक यू' उन्होंने लिखा व गाया। यह गाना यूके का तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गाना है। इस गाने में भी एडेल ने अपने दिल का हाल बयां किया। इस गाने के बाद से उन्हें ब्रेकअप स्टार कहा जाने लगा क्योंकि वह खुद भी इन्हीं परिस्थितियों का सामना कर रही थीं और उनके गाने से लोग खुद को जोड़ पाते थे। ये बात किसी ने छुपी नहीं है कि एडेल ने अपने ब्रेकअप के दर्द से करोड़ों कमाया। एडेल साल 2009-10 में किसी से प्यार करती थीं। किससे करती थीं यह

बात उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं की। वह शादी करके घर बसाना



चाहती थीं लेकिन उस शख्स ने किसी और से शादी कर ली। इसके बाद एडेल इतनी टूट गई कि दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। टूटा दिल लिए उन्होंने शेरलिंग इन द डीपर गाया। गाने के लिरिक्स 'शेमतमरे पितमं जंतजपदह पद उलमंतजश आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे उस वक्त एडेल के दिल पर क्या बीत रही थी। हाल ही में वे अपने ट्रांसफॉर्मेशन लुक की वजह से भी चर्चा में थीं। एक समय में एडेल का वजन काफी बढ़ा हुआ था लेकिन अब वह काफी फिट दिखाई देती हैं। उन्होंने मात्र एक साल के अंदर लगभग 20 किलो वजन घटाया था। बता दें कि एडेल अपने बेटे के साथ एक आलीशान बंगले में रहती हैं।

बोल्डनेस के मामले में किसी से कम नहीं हैं तारा सुतारिया



बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बोल्ड एंड ग्लैमरस फोटोज शेयर कर चर्चा में बनी रहती हैं। तारा सुतारिया का इंस्टाग्राम बोल्ड फोटोज से भरा पड़ा है। आज आपका दिखाते हैं तारा की कुछ हॉट फोटोज जिन्हें देख आप भी होश खो बैठेंगे।

गर्मियों में शरीर को ठंडक के साथ एनर्जी देंगी ये 2 Healthy Drinks




गर्मी से बचने के लिए हर किसी का मन कुछ ठंडा पीने का करता है। ऐसे में ठंडा-ठंडा जलजीरा व आम पन्ना पीना बेस्ट रहेगा। इससे गर्मी दूर होकर ठंडक का अहसास होगा। शरीर में पानी की कमी पूरी होने के साथ लू से बचाव रहेगा। इसके अलावा दिनभर तराताजा महसूस होता है। तो चलिए जानते हैं 2 हेल्दी एंड टेस्टी ड्रिंक को बनाने का तरीका...

1. जलजीरा सामग्री इमली का गूदा- 125 ग्राम पुदिने की पत्तियां- 3 बड़े चम्मच अदरक- 1 छोटा चम्मच (कहूकस किया) जीरा पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच जीरा- = छोटा चम्मच (टुकड़ों में कटा) लाल कश्मीरी मिर्च- एक चुटकी गुड़-50 ग्राम (कहूकस किया) काला नमक- 4 छोटे चम्मच नींबू का रस- 3-4 बड़े चम्मच गरम मसाला- 1ध 2 छोटा चम्मच पानी- 1.5 लीटर गार्निश के लिए बूंदी- जरूरत अनुसार विधि



1. सभी चीजों को एक साथ मिक्सी में पीस लें। फिर इसे ठंडा होने के लिए रातभर या कुछ घंटे फ्रीज में रखें। ठंडा होने पर इसे गिलास में भरकर बूंदी के साथ गार्निश करके सर्व करें।
2. आम पन्ना सामग्री 2 कच्चे आम 3 टी स्पून ब्राउन शुगर 1 टी स्पून जीरा पाउडर 2 टी स्पून काला नमक 1 टी स्पून नमक 2 कप पानी 1 टी स्पून पुदिने के पत्ते क्रश की हुई आइस आम पन्ना बनाने का तरीका

पैन में पानी और आम डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट या आम नरम होने तक उबालें। फिर आम ठंडा करके उसे छील कर पल्प यानी गूदा निकाल लें। अब मिक्सी में आम का पल्प और पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। पेस्ट को पैन में निकाल कर ब्राउन शुगर मिलाकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। चीनी घुल जाने पर इसे आंच से उतार लें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, नमक मिलाएं। आपका आम पन्ना का मिक्चर बन कर तैयार है। ड्रिंक बनाने के लिए एक गिलास ठंडे पानी में 1-2 चम्मच आम का मिक्चर मिलाएं। ऊपर से आइस क्यूब्स व पुदिने के पत्ते से गार्निश करके बाद सर्व करें।



पति-पत्नी सोते समय इन बातों का रखें ध्यान, रिश्ते में दूरियां नहीं बढ़ेगा प्यार

शादी एक खूबसूरत अहसास है, जिसमें दो लोग एक साथ मिलकर मजबूत रिश्ता बनाते हैं। मगर आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोगों की जिंदगी शादी के बाद तनाव से भर जाती है। दोनों की आपस में ना बनने से रिश्ते में खटास आने लगती है। कई बार तो शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है। असल में, इसके पीछे का एक कारण वास्तुदोष भी होता है। जी हां, वास्तु के अनुसार, गलत दिशा में कपल्स का बेडरूम होना व सोना इसके पीछे जिम्मेदार होती है। तो आइए आज हम आपको वास्तु के मुताबिक बेडरूम से जुड़ी कुछ खास बातें बतें, जिसे समय रहते बदल लेने में ही भलाई है...

इस दिशा में हो बेडरूम सबसे पहले हम आपको बेडरूम की सही दिशा के बारे में बताते हैं। वास्तु के अनुसार, कपल्स को अपना बेडरूम हमेशा घर के उत्तर-पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। इससे मैरिड लाइफ में खुशहाली व मजबूती बनी रहती है।

बेडरूम में रखें लकड़ी का बेड वैसे तो आजकल ट्रेंड व फैशन के मुताबिक बेड के अलग-अलग डिजाइन आ गए हैं। इसके साथ लोग मेटल, लोहे आदि के बेड पर सोना पसंद करते हैं। मगर वास्तु के अनुसार, कपल्स को बेडरूम में लकड़ी का बेड रखना चाहिए।

बेड के इस ओर सोना सही पति को हमेशा बेड के दाएं ओर पत्नी को बाईं ओर सोना चाहिए। वास्तु अनुसार, इससे रिश्ते में मजबूती व प्यार बढ़ता है।

इस दिशा में रखें सिर और पैर वास्तु के अनुसार, पति-पत्नी के कमरे सही चीजें होने के साथ उनका सही दिशा में सोना भी जरूरी है। तभी शादीशुदा जिंदगी में मिठास व अपनापन बरकरार रहता है। इसके लिए कपल्स को हमेशा अपने पैर उत्तर दिशा और सिर दक्षिण दिशा में रखकर ही सोना चाहिए।

कमरे में लगाएं ऐसी तस्वीर या शोपीस कमरे पर सफेद बत्तख के जोड़े की तस्वीर या शोपीस रखना चाहिए। इससे कमरे में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाती है। ऐसे में घर का माहौल खुशनुमा रहता है। साथ ही पति-पत्नी में चल रहा मनमुटाव दूर होकर रिश्ते में मजबूती आती है।

कमरे में रखें ताजे फूल कपल्स को अपने बेडरूम में ताजे व सुगंधित फूल रखने चाहिए। इसकी खुशबू से मन खुश रहेगा। साथ कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।



गर्मी से राहत दिलाएगी खसखस की 2 टेस्टी एंड हेल्दी ड्रिंक्स

गर्मियों में ठंडा-ठंडा शरबत व ठंडाई पीने का अलग ही मजा है। इससे शरीर को ठंडक मिलने के साथ थकावट दूर होती है। वहीं आज हम आपके लिए खस से शरबत व ठंडाई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। यह पीने में टेस्टी होने के साथ सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करेगी। तो आइए जानते हैं ये 2 हेल्दी ड्रिंक्स बनाने की रेसिपी...

1. खस शरबत सामग्री खस एसेंस- 1 छोटा चम्मच चीनी- 4 कप पानी- 3 कप हरा फूड कलर- 1-2 छोटे चम्मच विधि

पैन में पानी और चीनी डालकर मिलाएं। चीनी को धीमी आंच पर गाढ़ा व पानी में घुलने तक पकाएं। अब इसमें हरा फूड कलर और खस एसेंस मिलाएं। तैयार मिश्रण को साफ व सूखी एयर टाइट बोतल में भरें। आपका होममेड खस शरबत सीरप बनकर तैयार है। अब एक गिलास में 1,14 खस सीरप और 1ध 2 गिलास पानी मिलाएं।

2. बादाम खसखस ठंडाई सामग्री खसखस- 50 ग्राम खरबूजा-तरबूज के बीज- 25 ग्राम (रातभर भिगी और छिली हुई)

बादाम- एक छोटी कटोरी (रातभर भिगी और छिली हुई) गुलाब जल- 100 मिली छोटी इलायची- 1 छोटी कटोरी साबुत काली मिर्च- 1 छोटी कटोरी केवड़ा जल- 2 छोटे चम्मच गुलाब की पत्तियां- 20 ग्राम शक्कर- 2 बड़े चम्मच पानी- 1 कटोरी दूध- 1 गिलास विधि

सबसे बादाम, खरबूजा-तरबूज के बीज, छोटी इलायची, खसखस, साबुत काली मिर्च मिक्सी में पीस लें। अब पैन में पानी और चीनी डालकर मीडियम आंच पर चाशनी बनाएं।



आपको कौन-सी ड्रिंक सबसे ज्यादा पसंद है? चाय, कॉफी, बीयर या फिर नारियल पानी। आपका जवाब कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किन ड्रिंक्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? आज नेशनल बेवरेजेज डे (दंजपवर्दंस इमअमर्तहमे कंल) है। आइए, इस मौके पर हम आपको बताते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक्स-

चाय भारत समेत एशियन देशों में दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। वहीं, ब्रिटेन में भी अलग फलेवर और अंदाज में चाय पी जाती है। कॉफी जिन लोगों को चाय पसंद नहीं है, उन्हें कॉफी बहुत पसंद

होती है। ऐसे में दुनिया में कॉफी पीने वालों की संख्या भी चाय पीने वालों से ज्यादा है।

बीयर गर्मियों में चिल्ड बीयर पीने का एक अलग ही क्रेज है। दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिनका दिन बीयर के लिक्विड ब्रेकफास्ट से शुरू होता है।

सूप टेस्ट के साथ हेल्दी ऑप्शन के तौर पर दुनिया में सूप को भी बेहद पसंद किया जाता है। खासतौर पर वेजिटेबल सूप, चिकन सूप टॉप बेवरेजेज लिस्ट में सबसे ऊपर है।

एनर्जी ड्रिंक टॉप बेवरेजेज लिस्ट में एनर्जी ड्रिंक्स का नाम भी आता है। इसमें कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फ्रूट जूस, ग्लूकोज ड्रिंक्स शामिल हैं।

तनाव ही नहीं खून की कमी भी दूर करता है नीला केला, आइसक्रीम जैसे स्वाद के साथ देता है कई गजब के फायदे

आपने आजतक हरे और पीले, दो तरह के रंग वाले केले देखे होंगे। पर क्या आपने कभी नीले रंग के केले का नाम सुना है। जी हां ये खास रंग के केले सेहत में ही नहीं बल्कि स्वाद में भी गजब होते हैं। इनका स्वाद वैनिला आइसक्रीम की तरह होता है, जिसकी वजह से इन्हें आइसक्रीम केला भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है और हवाई में बहुत लोकप्रिय है। ब्लू जावा बनाना 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और इसके पेड़ के पत्ते सिल्वर-ग्रीन रंग के होते हैं। टिवटर पर एक व्यक्ति के अनुसार, इसका स्वाद वैनिला आइसक्रीम की तरह होता है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है इस ब्लू जावा बनाना खाने के फायदे।

आयरन की कमी पूरा करता है नीला केला- अगर आप भी खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रहे हैं तो नीले रंग का ये केला आपकी परेशानी दूर कर सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने में ब्लू जावा केला मदद कर सकता है। इस केले का सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी धीरे-धीरे कम होकर एनीमिया की समस्या में भी सुधार होता है। कब्ज से छुटकारा-

कब्ज से परेशान लोगों के लिए भी इस केले का सेवन फायदेमंद माना जाता है। कब्ज की परेशानी दूर करने के लिए आप इस्बगोल की भुस्सी या दूध के साथ इस केले को रात रात को सोने से पहले सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने पर कब्ज और गैस की समस्या से राहत मिलती है। तनाव से राहत- कई रिसर्च में कहा गया है कि केले का सेवन करने से तनाव से भी मुक्ति मिलती है। केले में मौजूद प्रोटीन शरीर को रिलेक्स करके टेंशन फ्री फील करवाता है। यही कारण है कि डिप्रेशन के मरीज जब भी केले का सेवन करते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है।

इसके अलावा केले में पाया जाने वाला विटामिन बी 6 शरीर में ब्लड ग्लूकोज को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। एनर्जी-



केले का सेवन शरीर में खून की मात्रा ही नहीं एनर्जी लेवल भी बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से केले और दूध का सेवन करने से व्यक्ति की सेहत बनी रहती है। पाचन क्रिया होती है बेहतर- केले में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को अच्छा बनाकर

व्यक्ति को कई रोगों से दूर रखता है। इस आलेख में दी गई जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित

करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है।

व्यक्ति को कई रोगों से दूर रखता है। इस आलेख में दी गई जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित

करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है।

व्यक्ति को कई रोगों से दूर रखता है। इस आलेख में दी गई जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित

करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है।

